

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 724]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 24, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

आदेश

क्र. 13862/3769/21-ब/छ.ग./2022.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री चन्द्रमोहन प्रसाद सिंह को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, जशपुर, जिला जशपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोक अभियोजक, जशपुर, जिला जशपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी।

उक्त नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित Writ Petition (s) 7696/2022 Sanjay Kumar Soni @ Sanjay Soni V/s State of Chhattisgarh & 04 other's में पारित निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.